

IT309

Roll No. : .....

2018  
**CYBER LAWS**

निर्धारित समय : तीन घंटे]

[अधिकतम अंक : 70

Time allowed : Three Hours]

[Maximum Marks : 70

**नोट :** (i) प्रथम प्रश्न अनिवार्य है, शेष में से किन्हीं पाँच के उत्तर दीजिये ।

**Note :** Question No. 1 is compulsory, answer any FIVE questions from the remaining.

(ii) प्रत्येक प्रश्न के सभी भागों को क्रमवार एक साथ हल कीजिये ।  
Solve all parts of a question consecutively together.

(iii) प्रत्येक प्रश्न को नये पृष्ठ से प्रारम्भ कीजिये ।  
Start each question on fresh page.

(iv) दोनों भाषाओं में अन्तर होने की स्थिति में अंग्रेजी अनुवाद ही मान्य है ।

Only English version is valid in case of difference in both the languages.

1. निम्नलिखित को परिभाषित कीजिये :

Define the following :

(i) साइबर स्पेस

Cyber Space

(ii) हैकिंग

Hacking

(iii) कन्सेंट (सहमति)

Consent

(iv) साइबर प्रायवेसी

Cyber Privacy

(v) डिजीटल हस्ताक्षर

Digital Signature

(2×5)

2. (i) विभिन्न प्रकार के कम्प्यूटर फ्राड (धोखे) को समझाइये ।  
Explain various types of Computer frauds.  
(ii) सॉफ्टवेयर पायरेसी क्या है ? समझाइये ।  
What is software piracy ? Explain. (6×2)
3. (i) साइबर अनुबंध के प्रदर्शन व निराशा को समझाइये ।  
Explain performance and frustration of Cyber contract.  
(ii) किसी अनुबंध के आवश्यक तत्व क्या हैं, संक्षिप्त में समझाइये ।  
What are the essential elements of a contract explain briefly. (6×2)
4. (i) प्रायवेसी कन्सर्न में मानवाधिकार दृष्टिकोण को समझाइये ।  
Explain human rights approach to privacy concerns.  
(ii) प्लेटफार्म फार प्रायवेसी प्रिफरेंस प्रोजेक्ट (P3P) क्या है ? समझाइये ।  
What is Platform for Privacy Preferences Project (P3P) ? Explain. (6×2)
5. (i) बौद्धिक संपदा पर ई-कामर्स का क्या प्रभाव है ?  
What is the impact of e-commerce on intellectual property ?  
(ii) डिजिटल वातावरण में कापीराइट किस प्रकार सुरक्षित किया जाता है ?  
How copyright is protected in digital environment ? (6×2)
6. (i) आई टी एक्ट, 2000 पर संक्षिप्त अवलोकन लिखिये ।  
Write a brief overview of IT Act, 2000.  
(ii) प्रमाणन प्राधिकरण को समझाइये ।  
Explain Certifying Authority (CA). (6×2)
7. (i) डिजिटल सिग्नेचर सर्टीफिकेट की क्या उपयोगिता है ? समझाइये ।  
What is the utility of Digital Signature Certificate ? Explain.  
(ii) निषेधाज्ञा क्या है ? समझाइये ।  
What are injunctions ? Explain. (6+6)
8. निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिये :  
Write short note on followings :  
(i) पेटेंट  
Patents  
(ii) नेट की विशेषतायें  
Features of Net (6+6)